

amendments, time extensions etc. (if any) will be hosted on our website only. Please visit the site regularly.

CP No. 75/2016  
S. Engineer (MM TCB)  
Phone : 07832503462/9406903759

THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI  
(ORIGINAL JURISDICTION)  
COMPANY PETITION NO. 465 OF 2016  
CONNECTED WITH  
COMPANY APPLICATION NO. (M) 56 OF 2016  
IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 1956 (1 OF 1956)  
SECTIONS 391 & 394  
AND  
IN THE MATTER OF SCHEME OF AMALGAMATION  
AND  
IN THE MATTER OF  
STRATFORD ACADEMY LTD  
PETITIONER/ TRANSFEROR COMPANY  
AND  
FIITJEE LTD  
PETITIONER/ TRANSFEREE COMPANY

(Both the Companies are incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having their registered office at 29-A, ICES House, Sarvapriya Vihar, Kalu Sarai New Delhi-110 016)

#### ADVERTISEMENT OF PETITION

A Petition under sections 391(2) and 394 of the Companies Act, 1956, for obtaining sanction of the Hon'ble High Court of Delhi to a Scheme of Amalgamation of Stratford Academy Ltd with FIITJEE Ltd was presented by the Petitioners above named on 20<sup>th</sup> day of May, 2016 and was admitted on 24<sup>th</sup> day of May, 2016 and the said Petition is fixed for hearing before the Hon'ble High Court on 23<sup>rd</sup> day of September, 2016 at 10.30 A.M. Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address to the Advocates for the Petitioners so as to reach the Petitioners' Advocates not later than 5 days before the date fixed for hearing of the Petition. Where he seeks to oppose the Petition, the grounds of opposition or a copy of the affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Sd/- Sd/-  
Rajeev K Goel & Ajay Garg  
(Advocate) (Advocate)  
Counsel for the Petitioners  
Place: New Delhi  
Date: 05.07.2016  
785, Pocket-E, Mayur Vihar-II, NH-24, Delhi 110 091

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI  
ORIGINAL COMPANY JURISDICTION  
COMPANY PETITION NO. 75 OF 2016  
CONNECTED WITH  
COMPANY APPLICATION (M) NO. 7 OF 2016

In the matter of  
the Companies Act, 1956 (1 of 1956)

AND

In the matter of  
Section 391 and 394 of the Companies Act, 1956

AND

In the matter of scheme of Amalgamation  
Of

ACE SECURITIES PRIVATE LIMITED,

(Transferor Company, Petitioner Company No.1)

WITH

MANI COMPUSOFT PRIVATE LIMITED

(Transferee Company, Petitioner Company No.2)

(Both Transferor Company and Transferee Company are incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having their registered office at 405, Skylark Building-60, Nehru Place, New Delhi-110019.)

#### NOTICE

TAKE NOTICE that a Petition under section 391(2) and 394 of the Companies Act, 1956 for obtaining the sanction of the Hon'ble High Court of Delhi to a scheme of Amalgamation of ACE SECURITIES PRIVATE LIMITED with MANI COMPUSOFT PRIVATE LIMITED was presented by the Petitioners above named 29<sup>th</sup> day of January, 2016 and was listed on 1<sup>st</sup> day of February, 2016 and the said petition is fixed for hearing before the Hon'ble Company Judge on the 29<sup>th</sup> day of July, 2016 at 10.30 A.M.

Any person desirous of supporting or opposing the said petition should send notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address to the Advocate for the Petitioners so as to reach the Petitioner's Advocate not later than 5 days before the date fixed for hearing of the Petition. Where he seeks to oppose the Petition, the grounds of opposition and a copy of the affidavit should be furnished with such notice. A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Amit Goel, Advocate  
Goel & Associates  
Corporate Lawyers & Consultants,  
Advocates for the Petitioners  
A-2, Navkunj Apartments  
87, I.P. Extension, Delhi - 110092

Date: 16/06/2016

Place: New Delhi

In the register of members as on July 01, 2016 for seeking their consent on the Draft Special Resolution under regulation 8 (1) (b) of SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 for authorizing to the Board of Directors of the company to Delist the Securities of the Company from all the Stock Exchanges, where the shares of the company are presently listed. Members who have not received postal ballot forms may request for a duplicate copy to the company or alternatively download it from the website of the company i.e. [www.mewarpolytex.com](http://www.mewarpolytex.com) or from the websites of the stock exchange i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

The company has also provided the facility of e-voting to its members. A member may exercise the rights to vote through either by e-voting or through postal ballot. It should be noted that voting commence from July 06, 2016, Wednesday at 10.00 A.M and ends on August 04, 2016, Thursday at 5.00 P.M. Duly completed postal ballot forms should reach scrutinizer on or before August 04, 2016, Thursday till 5.00 P.M. Postal ballot forms received after 5.00 P.M of this date will be treated as invalid. In case of any query/grievance connected with e-voting or postal ballot, members may approach M/s Ankit Consultancy Pvt. Ltd. having its office at 60, Electronic Complex, Pardeshipura, Indore, Madhya Pradesh-452010 (Registrar).

The results of the postal ballot would be announced on August 05, 2016, Friday at 5.00 P.M at the registered office of the company and the same would also be available on website of the company i.e. [www.mewarpolytex.com](http://www.mewarpolytex.com).

By Order of the Board  
For MEWAR POLYTEX LIMITED

Date : July 05, 2016  
Place: Udaipur

Sd/-  
[B.H. Bapna]  
Managing Director  
DIN-00594590

Notice under section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (The Act)

Sr. No.	Name and Address(es) of Borrower(s) (A)	Loan amount (Rs.) (B)	Particulars of Mortgaged Property / Properties (C)	Outstanding amount (Rs.) (D)
1.	MR./MRS./M/S. 1. M S TRADERS (THROUGH PROPRIETOR) 2. PARUL KOHLI 3. SHIVANGI KOHLI 4. KIRAN KOHLI 5. SUDERSHAN KUMAR KOHLI All At: SHOP NO-17 LSC M-BLOCK VIKASPURI NEW DELHI-110018. All Also At: M-165 (PLOT NO.165, BLOCK-M), situated at VIKASPURI, NEW DELHI - 110018. All Also At: SHOP NO.17, GROUND FLOOR, LSC, M-BLOCK, VIKAS PURI, NEW DELHI-110 018. 2. PARUL KOHLI 3. SHIVANGI KOHLI 4. KIRAN KOHLI 5. SUDERSHAN KUMAR KOHLI Also At: B-104, NARAINA VIHAR, NEW DELHI - 100028. Also At: F-106, SECOND FLOOR, VIKAS PURI, NEW DELHI - 110018.	Loan Account No. HLAPBHW0220593 for an amount of Rs. 2,49,00,000/- (Rupees Two Crore Forty Nine Lakh(s) Only)	M-165 (PLOT NO.165, BLOCK-M), situated at VIKASPURI, NEW DELHI - 110018.	Rs. 2,70,04,944/- (Rupees Two Crore Seventy Lakh(s) Four Thousand Nine Hundred Forty Four Only) as on 11.06.2016 along with future interest @ 12.50% Per Annum w.e.f. 12.06.2016 till actual date of payment.

That the above named borrower(s) have failed to maintain the financial discipline in loan account and as per the books of accounts maintained in the ordinary course of business by the Company, there exists an outstanding amount indicated in column D against the name of each borrower(s).

Due to persistent default in repayment of the Loan amount on the part of the Borrower(s) the loan account of the Borrower(s) has been classified by the Company as Non Performing Asset within the stipulated norms. Consequently notices under Sec. 13(2) of the Act were also issued to each of the borrower.

In view of the above, the Company hereby calls upon the above named Borrower(s) to discharge in full his/her liabilities towards the Company by making the payment of the entire outstanding dues indicated in Column D above including up to date interest, costs, and charges within 60 days from the date of publication of this notice, failing which, the Company shall be entitled to take possession of the Mortgaged Property mentioned in column C above and shall also take such other actions as is available to the Company in law.

That please be informed that the Borrower(s) are hereby restrained from alienating (including by way of transfer, sale, lease or otherwise) or creating third party interest or dealing with the Mortgaged Property in any manner except with specific prior written permission from Company. Be informed that any contravention thereof shall be punishable with imprisonment upto a period of one year or with fine or with both.

Place : DELHI

For Indiabulls Housing Finance Ltd.  
Authorized Officer



